



## PPAP Automotive Limited

B-206A ■ Sector-81 ■ Phase-II ■ Noida 201305 ■ Uttar Pradesh ■ India  
☎ +91-120-4093901 ✉ info@ppapco.com 🌐 www.ppapco.in

11<sup>th</sup> May, 2021

The Listing Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
Symbol: 532934

The Listing Department  
The National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400051  
Symbol: PPAP

**Subject: Copy of Advertisement published in Newspaper- Audited Financial Results for year ended 31<sup>st</sup> March, 2021.**

Dear Sir(s),

Please find enclosed the copies of audited financial results for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2021, published in Business Standard (Hindi & English) Newspapers on 11<sup>th</sup> May, 2021.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **PPAP Automotive Limited**

**Sonia Bhandari**  
Company Secretary

**TATA POWER**  
The Tata Power Company Limited  
(Corporate Contracts Department)  
Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station,  
Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E),  
Mumbai 400 059, Maharashtra, India  
(Board Line: 022-47173188) CIN: L2820MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST**  
The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest (EOI) from eligible bidders for participation in following tender:

"Ash evacuation, transportation and stowing for Maithon Power Limited"

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security etc., please visit Tender section of our website URL: <https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx>. Eligible bidders willing to participate may submit their EOI along with the tender fee by 17<sup>th</sup> May, 2021, for issue of tender documents.

FEDERAL BANK  
Opp. All India Radio, 5 Subhash Road,  
Rohtak, Distt. Rohtak, Haryana - 124001  
Ph. : 91-1262-252455, 252490

**FEDERAL BANK**  
YOUR PERFECT BANKING PARTNER  
Regd. Office: Always, Korala

**NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD**  
Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 26.05.2021 (Sandeep), 25.05.2021 (Mahender Singh) as shown below:

FEDERAL BANK Opp. All India Radio, 5 Subhash Road, Rohtak, Distt. Rohtak, Haryana - 124001	16546400016634 Sandeep
	16546400016618 Mahender Singh

Place: Rohtak, Date: 10.05.2021 Branch Manager, The Federal Bank Ltd.

**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT**  
(AN ISO 9001 : 2015 Certified Organization)  
HABIBGANJ, BHOPAL - 462024, E-mail : [bsdsim@gmail.com](mailto:bsdsim@gmail.com)  
Phone : 0755-2478250-53, Fax : 0755-2450896

Ref. No. : 41 Dated : 10.05.2021

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Online Tenders are invited for supply of Powder Flavour (Nature Identical) at Bhopal Sahakari Dugdh Sangh from reputed manufacturers/suppliers. The tender documents containing the terms and conditions can be purchased online & downloaded through following website <http://www.mptenders.gov.in> from 10.05.2021 onwards. The tender will be opened in the office of the undersigned as mentioned in tender time schedule (key date). The detailed Tender Form can be seen (only for reference) at our HO website : [www.mpcdf.nic.in/](http://www.mpcdf.nic.in/) [www.sanchibhopal.com](http://www.sanchibhopal.com). Any changes in tender documents will be notified on above website only and not at any other sources/platforms, hence bidders are requested to visit the site regularly. The Chief Executive Officer Bhopal Sahakari Dugdh Sangh Maryadit has all the right to accept or reject any or all bids.

Name of Item	EMD (Rs.)	Tender Fee (Rs.)	Bid Submission Due Date & Time	Bid Opening Date & Time
Powder Flavour (Nature Identical)	60,000/-	1000/-	31.05.2021 03:00 pm	01.06.2021 03:00 pm

M.P. Madhyam/100703/2021 CHIEF EXECUTIVE OFFICER

**Prakash Pipes Limited**  
CIN : L25209PB2017PLC046660  
Regd. Office : Darjiyan Wali Gali, Rayya, Teh. Baba Bakala, Amritsar - 143112 (Punjab)

**COMPANY NOTICE**  
Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 17th May, 2021 to consider, inter alia, Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2021 and to consider and recommend dividend, if any, on the equity shares of the Company for the financial year ended 31st March, 2021. This is pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015.

The intimation and outcome of the above meeting will be available on the Company's website viz. [www.prakashpipes.in](http://www.prakashpipes.in) and also on the website of the respective stock exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Prakash Pipes Limited Sd/-  
Sonu Sharma  
Company Secretary  
Place : New Delhi  
Date : 10.05.2021

**ASAHI INDIA GLASS LIMITED**  
CIN: L26102DL1984PLC019542  
Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065, Phone: (011) 49454900  
Corporate Office: 5th Floor, Tower B, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurgaon - 122 002 (Haryana)  
Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88  
Email: [investorrelations@aisglass.com](mailto:investorrelations@aisglass.com), Website: [www.aisglass.com](http://www.aisglass.com)

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company have been reported lost/misplaced and applications from the registered holders thereof have been received for issuance of duplicate share certificates:

Name of the shareholders	Folio No.	Distinctive Nos. From - To	Cert. No.	No. of shares
MAHESH KUMAR	00044542	975464985 - 975465021	134042	37
SUDHENDRA KUMAR GUPTA	00064971	976439054 - 976439090	154468	37
SADHAN SIL	00085830	976319584 - 976319620	151352	37
		87233600 - 87233636	195966	37

Any person(s) having claim in the above shares or any objection to the said issue of duplicate share certificates, should notify the Company's Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, within 15 days from the date of this publication. If no claim/objection is received, the Company shall proceed to issue duplicate share certificates as applied for.

For Asahi India Glass Ltd. Sd/-  
Gopal Ganatra  
Executive Director  
General Counsel & Company Secretary  
Membership No. F7090

Date : 10<sup>th</sup> May, 2021  
Place : Gurgaon

**Jyothy Labs**  
Jyothy Labs Limited  
(Formerly known as Jyothy Laboratories Limited)  
CIN: L24240MH1992PLC128651  
Registered Office: 'Ujala House', Ram Krishna Mandir Road, Kondvita, Andheri (East), Mumbai - 400059;  
Tel: 022 6689 2800; Fax: 022 6689 2805;  
E-mail: [secretarial@jyothy.com](mailto:secretarial@jyothy.com); Website: [www.jyothy.com](http://www.jyothy.com)

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Jyothy Labs Limited (Formerly known as Jyothy Laboratories Limited) is scheduled to be held on Tuesday, May 18, 2021, inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company on Standalone and Consolidated basis for the quarter and year ended March 31, 2021 and to consider recommendation of dividend, if any, on the equity shares of the Company for the financial year 2020-21.

The aforesaid intimation can also be accessed on the website of the Company i.e. [www.jyothy.com](http://www.jyothy.com) and on the website of the Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

For Jyothy Labs Limited (Formerly known as Jyothy Laboratories Limited) Sd/-  
Shreyas Trivedi  
Head- Legal & Company Secretary

Place: Mumbai  
Date: May 10, 2021

**HAVE A GOOD BUSINESS MORNING!**

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email [order@bsmail.in](mailto:order@bsmail.in)

**Business Standard**  
Insight Out

bsindia bsindia business-standard.com

**Business Standard DELHI EDITION**

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at [feedback@bsmail.in](mailto:feedback@bsmail.in)  
Ph. 011-23720202, Fax : +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:  
Ms. Mansi Singh  
Head-Customer Relations  
Business Standard Private Limited,  
H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400013  
E-mail: [subs\\_bs@bsmail.in](mailto:subs_bs@bsmail.in)  
\*or sms, REACHBS TO 57575

**DISCLAIMER** News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

**No Air Surcharge**

**बैंक ऑफ महाराष्ट्र** BANK OF MAHARASHTRA, Zonal Office, Jaipur, 6th Floor, Fortune heights, Ahinsa Circle, C-Scheme, Jaipur-302001, Phone: 0141-2379903, 905, Email id: [dzmjajipur@mahabank.co.in](mailto:dzmjajipur@mahabank.co.in)  
Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-5

**DEMAND NOTICE**  
**NOTICE UNDER SEC. 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002**  
Notice for the period of 60 days was given under section 13(2) of above act to the following borrowers to deposit loan amount and future interest due to NPA of their account by the authorized officer of the bank. According to the notice if the loan amount not deposited within 60 days, the said amount was to be recovered under provision of section 13(4) of the said act. The Branch has not received the acknowledgement of said notice/returned undelivered which was sent to you under said act. Therefore this is to inform through notice that deposit the loan amount with future interest and expenses, hence further steps will be taken by the bank under provisions of section 13 and 14 of the said Act.

Date of Notice U/s 13(2)	Name, Address of the Borrower/ Guarantor NPA Date, A/c No.	Outstanding Amount	Description of the Mortgaged Assets
27.04.2021	1. Mr. Vasant Yuvraj Patil S/o Shri Yuvraj Patil (Borrower) A-111, First Floor, Grand Vista G-1, Kanak Vrindavan, Sirsi Road, Jaipur, Rajasthan-302012	Rs. 14,92,264.80 (Rupees Fourteen Lac Ninety Two Thousand Two Hundred	Equitable Mortgage of Flat No. A-111, Cluster A, First Floor, Grand Vista G-1, Kanak Vrindavan, Sirsi Road, Jaipur
	2. Mrs. Rohini Gorkh Ahire (Guarantor) W/o Mr. Vasant Yuvraj Patil (Guarantor) A-111, First Floor, Grand Vista G-1, Kanak Vrindavan, Sirsi Road, Jaipur, Rajasthan-302012. NPA Date: 26.03.2021 & Term Loan A/c Nos. 60077409857 & 60209925401	Sixty Four and Eighty Paise only) as on 26.04.2021 + further interest and other expenses thereon.	Rajasthan admeasuring approx. 1075.00 sq.fts. in name of Mr. Vasant Yuvraj Patil S/o Shri Yuvraj Patil. CERSAS Asset ID: 200000897294

Date: 11.05.2021 Place: Jaipur Yours Faithfully, (Authorised Officer) BANK OF MAHARASHTRA

**Aadhar Housing Finance Ltd.**  
Corporate Office : 201, Raheja Point-1, Near SVC Bank, Vakola, Nehru Road, Santacruz ( East ), Mumbai - 400055  
Faridabad Branch Office: Samadhan Chambers, 2nd Floor, Rear portion, A - 7/1, Samadhan Chambers, Neelam Bata road, NIT, Faridabad - 121001 (Haryana)

**DEMAND NOTICE**  
Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Ltd. (AHFL) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorised Officer has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to AHFL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to AHFL by the said Borrower(s) respectively.

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Co-Borrower (s)/Guarantor	Demand Notice Date and Amount	Description of Secured asset (immovable property)
1.	(App. No: 00113898 & 00113902 of Faridabad Branch) Shakti Devi (Borrower), Kartar Singh (Co-Borrower 1), Ritika Kartar Singh (Co-Borrower 2), Garvit Dudeja (Guarantor 1), Geetika Gulati (Guarantor 2)	15-Apr-21 Rs. 16,20,723/- & Rs. 9,64,735/-	House No- 204, Ward No-13, Bhim Nagar, Near Vijay Sweets Near Ram Leela Ground, Gurgaon, Haryana-122001
2.	(App. No: 00151727 of Faridabad Branch) Prempal Sharma (Borrower) Veena Sharma (Co-Borrower)	15-Apr-21 Rs. 15,99,203/-	House No. 2423, 2433/4Mcf, Gali No. 28 Sanjay Colony, Faridabad, Faridabad, Haryana-121001

If the said Borrowers shall fail to make payment to AHFL as aforesaid, AHFL shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of AHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Place: Faridabad Date: 11.05.2021 Authorised Officer, Aadhar Housing Finance Limited

**PPAP AUTOMOTIVE LIMITED**  
CIN: L74899DL1995PLC073281  
Registered Office: 54, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020  
Corporate Office: B-206A, Sector-81, Phase-II, Noida-201305, (Uttar Pradesh)  
Tel: +91-120-2462552 / 53; Fax: +91-120-2461371  
Website: [www.ppapco.in](http://www.ppapco.in); E-mail ID: [investorservice@ppapco.com](mailto:investorservice@ppapco.com)

(₹ In lacs except for EPS data)

**EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF PPAP AUTOMOTIVE LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2021 PREPARED IN COMPLIANCE WITH THE INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND-AS)**

S.No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
		31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Revenue from operations	11,411.56	32,219.75	10,353.41
2	Profit before tax	963.15	323.01	734.48
3	Profit after tax for the period	702.96	209.75	584.99
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	740.07	287.85	490.61
5	Profit attributable to:			
	(a) Owners of the Company	702.96	209.75	584.99
	(b) Non-controlling interest	-	-	-
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹10/- each)	1,400.00	1,400.00	1,400.00
7	Earnings per share (of ₹10/- each)			
	(a) Basic (₹)	5.02	1.50	4.18
	(b) Diluted (₹)	5.02	1.50	4.18

**Notes :**

- Audited financial results of PPAP Automotive Limited (Standalone information) (₹ in lakhs)

Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020
	Unaudited	Audited	Unaudited
Revenue from operations	11,354.57	32,118.27	10,356.72
Profit before tax	1,130.64	633.86	719.01
Profit after tax for the period	853.68	483.61	567.27

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on Company's website ([www.ppapco.in](http://www.ppapco.in)).
- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 10<sup>th</sup> May, 2021.
- The above consolidated financial results includes results of PPAP Tokai India Rubber Private Limited, Joint Venture of the Company in which the Company holds 50% stake and two subsidiary companies. The Company together with its subsidiaries is herein referred to as the Group.
- The Group is primarily engaged in the business of manufacturing and sale of automotive components. The Group is also engaged in manufacturing and sale of mould, dies and other products, moulded parts for non-automotive segment. In the context of Ind AS-108 "Operating Segment", automotive component is the only reportable operating segment.
- The Group has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying value of property, plant and equipment, investments, inventories, receivables and other current assets. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic on the expected future performance, the Group had, on 31<sup>st</sup> March 2020, used internal and external sources and concluded that the carrying amount of these assets will be recovered. The Group's operations have progressively moved towards normal capacity during the current period and no material change has occurred in the underlying assumptions, projections and conclusion.
- The Board of Directors have also recommended the final dividend of ₹1.00 per equity share of ₹10/- each at their meeting held on 10<sup>th</sup> May, 2021, subject to the approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

Place: New Delhi  
Date: 10<sup>th</sup> May, 2021

For PPAP AUTOMOTIVE LIMITED  
Abhishek Jain  
(CEO & Managing Director)

Taking Challenges, Together

